



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i).प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 24, 2006/माघ 4, 1927

No. 31]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 24, 2006/MAGHA 4, 1927

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2006

सा.का.नि. 34(अ).— भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 4 के उप नियम (2) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 में आगे और संशोधन करने के लिए पत्रद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (i) इन विनियमों का नाम भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 2006 है।
(ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 की अनुसूची में "छत्तीसगढ़" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

छत्तीसगढ़

1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद
प्रधान महा वन संरक्षक

79

1

प्रधान महा वन संरक्षक	1
(वन्य जीव प्रबंध और जैव विविधता सह-मुख्य वन्य जीव रक्षक)	
अपर प्रधान महा वन संरक्षक	1
(विकास और योजना)	1
अपर प्रधान महा वन संरक्षक	
(प्रशासन/समन्वय)	1
अपर प्रधान महा वन संरक्षक	1
(कार्य योजना)	
अपर प्रधान महा वन संरक्षक	1
(संयुक्त वन प्रबंध और नीति विश्लेषण)	
मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव)	1
मुख्य वन संरक्षक (इको-टूरिज़म)	1
मुख्य वन संरक्षक (बजट, लेखा और लेखा परीक्षा)	1
मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)	1
मुख्य वन संरक्षक (भूमि प्रबंधन और वन संरक्षक अधिनियम)	1
मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)	1
मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता)	1
मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास और सूचना प्रौद्योगिकी)	1
मुख्य वन संरक्षक (परियोजना निर्माण)	1
मुख्य वन संरक्षक (अनुवीक्षण और मूल्यांकन)	1
मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)	1
मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान और विस्तार)	1
वन संरक्षक (विकास और आयोजना)	1
वन संरक्षक (प्रशासन और समन्वय)	1
वन संरक्षक (इको-टूरिज़म)	1
वन संरक्षक (संरक्षण)	1
वन संरक्षक (उत्पादन)	1
वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंध और नीति विश्लेषण)	1
वन संरक्षक (सतर्कता)	1
वन संरक्षक (भू प्रबंधन और वन संरक्षण)	1
वन संरक्षक, रायपुर	1
वन संरक्षक, बिलासपुर	1

वन संरक्षक, दुर्ग	1
वन संरक्षक, कनकेर	1
वन संरक्षक, जगदलपुर	1
वन संरक्षक, सरगुजा	1
वन संरक्षक, कार्य योजना (बिलासपुर)	1
क्षेत्रीय निदेशक परियोजना टाइगर (इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर)	1
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), बिलासपुर	1
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), मरवाही पंडारा रोड	1
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), कोरबा	1
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), राजगढ़	1
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), कटघोरा	1
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), धर्मजयगढ़, राजगढ़	1
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), जंजागिर-चम्पा	1
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), दुर्ग	1
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), कंवर्धा	1
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), राजनंदगांव	1
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), खेरागढ़	1
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), बस्तर	1
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), बीजापुर	1
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), सुक्मा	1
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), दांतीवाड़ा	1
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), कन्केर	1
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), पूर्वी भानुप्रतापपुर	1
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), पश्चिमी भानुप्रतापपुर	1
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), नारायणपुर	1
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), उत्तर कोंडागांव	1
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), दक्षिण कोंडागांव	1
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), रायपुर	1
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), पूर्वी रायपुर	1
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), धामतरी	1
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), महासनुंद	1
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), उदांती प्रभाग (गढ़ियाबंद)	1

उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), पूर्वी सरगुजा	1
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), उत्तर सरगुजा	1
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), दक्षिण सरगुजा	1
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), कोरिया	1
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), जशपुर	1
उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), मनेन्द्रगढ़	1
जिला वन अधिकारी, कार्य योजना मंडल - बिलासपुर	1
जिला वन अधिकारी, कार्य योजना मंडल - सरगुजा	1
जिला वन अधिकारी, कार्य योजना मंडल - रायपुर	1
जिला वन अधिकारी, कार्य योजना मंडल - जगदलपुर	1
जिला वन अधिकारी, कार्य योजना मंडल - कनकेर	1
जिला वन अधिकारी, कार्य योजना मंडल - दुर्ग	1
निदेशक, कांगेरघाटी नेशनल पार्क, जगदलपुर	1
निदेशक, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, बैकुंठपुर	1
निदेशक, अचनाकमर बायोस्फेयर रिसर्च	1
जिला वन अधिकारी, अनुसंधान और विस्तार प्रभाग, बिलासपुर	1
जिला वन अधिकारी, अनुसंधान और विस्तार प्रभाग, जगदलपुर	1
जिला वन अधिकारी, अनुसंधान और विस्तार प्रभाग, रायपुर	1
उप वन संरक्षक (प्रशासन)	1

- | | |
|---|----|
| 1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद | 79 |
| 2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिज़र्व, उपर्युक्त मद 1 का 20 प्रतिशत की दर से | 16 |
| 3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिज़र्व, उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत की दर से | 20 |
| 4. प्रशिक्षण रिज़र्व, उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत की दर से | 03 |

5.	भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद (उपर्युक्त मद 1, 2, 3 तथा 4 के 33-1/3 प्रतिशत से अधिक नहीं)	39
6.	छुट्टी रिज़र्व और कनिष्ठ पद रिज़र्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत की दर से	13
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+6-5)	92
8.	सीधे भर्ती पद	92
9.	पदोन्नति पद	39
	कुल प्राधिकृत संख्या	131

[सं. 16016/02/2005-अ.भा.से. (II)-क]

संगीता सिंह, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी : इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व छत्तीसगढ़ (भारतीय वन सेवा) संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 115 थी ।

टिप्पणी : मुख्य विनियम दिनांक 31.10.1966 की अधिसूचना संख्या 6/4/66-अ.भा.से. (IV) सा.का.नि. संख्या 1072 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे । बाद में, भारतीय वन सेवा संवर्ग (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियम, 1966 में संशोधन निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं और तारीखों के द्वारा किए गए थे:-

क्र.सं.	सा.का.नि. संख्या	प्रकाशन की तारीख		क्र.सं.	सा.का.नि. संख्या	प्रकाशन की तारीख	
1	1673	30.10.66		31.	444 (अ.)	6.7.76	
2	17	7.1.67		32.	750 (अ.)	3.8.76	
3.	653	6.5.67		33.	93 (अ.)	26.2.77	
4.	654	6.5.67		34.	631 (अ.)	5.10.77	
5	689	13.5.67		35.	13 (अ.)	6.1.78	
6.	1083	8.6.68		36.	360(अ.)	13.7.78	
7.	1887	9.8.69		37.	436(अ.)	29.8.78	
8.	80	17.1.70		38.	486(अ.)	25.8.80	
9.	485	21.3.70		39.	562(अ.)	30.9.80	
10.	545	4.4.70		40.	626अ.	3.11.80	
11.	1802	24.10.70		41.	631अ.	4.11.80	
12.	135	24.1.75		42.	21अ.	17.1.81	
13.	136	24.1.71		43.	31अ.	23.1.81	
14.	665	8.5.71		44.	84(अ.)	27.2.81	
15.	45 (अ.)	20.1.72		45.	456(अ.)	9.5.81	
16	47(अ.)	20.1.72		46.	360(अ.)	23.5.81	
17	48(अ.)	20.1.72		47.	276(अ.)	2.6.81	
18.	478(अ.)	4.12.72		48.	386(अ.)	9.6.81	
19.	192(अ.)	2.4.73		49.	602(अ.)	16.11.81	
20.	321(अ.)	27.6.73		50.	604(अ.)	17.11.81	
21.	391(अ.)	10.8.73		51.	653(अ.)	10.12.81	
22.	142	24.1.71		52.	657(अ.)	11.12.81	
23.	28(अ.)	8.5.71		53.	294(अ.)	1.4.82	
24.	273(अ.)	11.1.72		54.	354(अ.)	26.4.82	
25.	300(अ.)	20.1.72		55.	356(अ.)	27.4.82	
26.	812	29.4.72		56.	778(अ.)	31.5.82	
27.	2227	16.8.75		57.	530(अ.)	20.8.82	
28.	71	17.1.76		58.	24अ.	12.1.83	
29.	407(अ.)	16.6.76		59.	126(अ.)	28.2.85	
30.	1064	24.7.76		60.	308(अ.)	26.3.85	

61.	327अ.	29.3.85		96.	584	19.10.91
62.	489अ.	12.6.85		97.	538(अ.)	6.8.93
63.	266	12.4.86		98.	685(अ.)	4.11.93
64.	654	30.8.86		99.	687(अ.)	4.11.93
65.	763.	20.9.86		100.	514	22.10.94
66.	798.	27.9.86		101.	513	22.10.94
67.	796	27.9.86		102.	321अ.	31.3.95
68.	835	4.10.86		103.	213	29.4.95
69.	837	4.10.86		104.	278	10.6.95
70.	880	18.10.86		105.	264	6.6.95
71.	164	14.3.87		106.	339	22.7.95
72.	407	30.5.87		107.	375	12.8.95
73.	619	15.3.87		108.	480	18.11.95
74.	802	31.10.87		109.	479	18.11.95
75.	826	7.11.87		110.	503	2.12.95
76.	835	14.10.87		111.	537	9.12.95
77.	836	14.11.87		112.	75अ.	5.2.96
78.	432अ.	6.4.88		113.	77अ.	5.2.96
79.	546अ.	4.5.88		114.	231	8.6.96
80.	834अ.	3.8.88		115.	233	8.6.96
81.	352अ.	10.3.89		116.	589अ.	26.12.96
82.	553अ.	16.5.89		117.	587अ.	26.12.96
83.	455	1.7.89		118.	585अ.	26.12.96
84.	832	11.11.89		119.	17अ.	17.1.97
85.	916	16.12.89		120.	413	20.12.97
86.	933	30.12.89		121.	741अ.	31.12.97
87.	590	22.9.90		122.	40	29.1.98
88.	603	29.9.90		123.	617अ.	14.1.98
89.	728	8.12.90		124.	372	10.12.99
90.	730	8.12.90		125.	374	10.12.99
91.	125(अ.)	5.3.91		126.	824अ.	21.10.2000
92.	246	13.4.91		127.	827अ.	21.10.2000
93.	473	24.8.91		128.	830अ.	21.10.2000
94.	527	14.9.91		129.	141	27.4.2002
95.	565	5.10.91		130.	143	27.4.2002
				131.	139	27.4.2002
				132.	145	27.4.2002
				133.	147	27.4.2002
				134.	372	21.9.2002
				135.	173	26.4.2003

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personal and Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd January, 2006

G.S.R. 34(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule 2 of Rule 4 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, the Central Government, in consultation with the Government of Chhattisgarh hereby makes the following regulations further to amend the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, namely:-

1. (i) These Regulations shall be called the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Amendment Regulations, 2006.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Schedule to the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, for the heading 'Chhattisgarh' and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely:-

CHHATTISGARH

1. Senior posts under the State Government	79
Principal Chief Conservator of Forests	1
Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife Management & Biodiversity Conservation)-cum- Chief Wildlife Warden	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Development & Planning)	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Administration / Coordination)	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Working Plan)	1

Additional Principal Chief Conservators of Forests (Joint Forest Management & Policy Analysis)	1
Chief Conservator of Forests (Wild Life)	1
Chief Conservator of Forests (Eco-Tourism)	1
Chief Conservator of Forests (Budget, Account & Audit)	1
Chief Conservator of Forests (Administration)	1
Chief Conservator of Forests (Land Management & Forest Conservation Act)	1
Chief Conservator of Forests (Protection)	1
Chief Conservator of Forests (Vigilance)	1
Chief Conservator of Forests (HRD & IT)	1
Chief Conservator of Forests (Project Formulation)	1
Chief Conservator of Forests (Monitoring & Evaluation)	1
Chief Conservator of Forests (Production)	1
Chief Conservator of Forests (Research & Extension)	1
Conservator of Forests (Development & Planning)	1
Conservator of Forests (Administration & Coordination)	1
Conservator of Forests (Eco-Tourism)	1
Conservator of Forests (Protection)	1
Conservator of Forests (Production)	1
Conservator of Forests (JFM & Policy Analysis)	1
Conservator of Forests (Vigilance)	1
Conservator of Forests (Land Management & Forest Conservation)	1

Conservator of Forests, Raipur	1
Conservator of Forests, Bilaspur	1
Conservator of Forests, Durg	1
Conservator of Forests, Kanker	1
Conservator of Forests, Jagdalpur	1
Conservator of Forests, Sarguja	1
Conservator of Forests, Working Plan (Bilaspur)	1
Field Director Project Tiger (Indravati National Park Jagdalpur)	1
Deputy Conservator of Forests (Territorial), Bilaspur	1
Deputy Conservator of Forests (Territorial), Marwahi Pendra Road	1
Deputy Conservator of Forests (Territorial), Korba	1
Deputy Conservator of Forests (Territorial), Rajgarh	1
Deputy Conservator of Forests (Territorial), Katghora	1
Deputy Conservator of Forests (Territorial), Dharamjaygarh, Rajgarh	1
Deputy Conservator of Forests (Territorial), Janjagir-Champa	1
Deputy Conservator of Forests (Territorial), Durg	1
Deputy Conservator of Forests (Territorial), Kawardha	1
Deputy Conservator of Forests (Territorial), Rajnandgaon	1
Deputy Conservator of Forests (Territorial), Khairagarh	1
Deputy Conservator of Forests (Territorial), Bastar	1
Deputy Conservator of Forests (Territorial), Bijapur	1

Deputy Conservator of Forests (Territorial), Sukma	1
Deputy Conservator of Forests (Territorial), Dantewada	1
Deputy Conservator of Forests (Territorial), Kanker	1
Deputy Conservator of Forests (Territorial), East Bhanuparatappur	1
Deputy Conservator of Forests (Territorial), West Bhanupartappur	1
Deputy Conservator of Forests (Territorial), Narayanpur	1
Deputy Conservator of Forests (Territorial), North Kondagaon	1
Deputy Conservator of Forests (Territorial), South Kondagaon	1
Deputy Conservator of Forests (Territorial), Raipur	1
Deputy Conservator of Forests (Territorial), East Raipur	1
Deputy Conservator of Forests (Territorial), Dhamtari	1
Deputy Conservator of Forests (Territorial), Mahasanund	1
Deputy Conservator of Forests (Territorial), Udanti Division (Gariaband)	1
Deputy Conservator of Forests (Territorial), East Sarguja	1
Deputy Conservator of Forests (Territorial), North Sarguja	1
Deputy Conservator of Forests (Territorial), South Sarguja	1
Deputy Conservator of Forests (Territorial), Korea	1
Deputy Conservator of Forests (Territorial), Jashpur	1
Deputy Conservator of Forests (Territorial), Manendragarh	1
District Forest Officer Working Plan Division -Bilaspur	1
District Forest Officer Working Plan Division - Sarguja	1

	District Forest Officer, Working Plan Division - Raipur	1
	District Forest Officer, Working Plan Division - Jagdalpur	1
	District Forest Officer, Working Plan Division - Kanker	1
	District Forest Officer, Working Plan Division - Durg	1
	Director, Kangerghati National Park, Jagdalpur	1
	Director, Guru Ghasidas National Park, Baikuntpur	1
	Director, Achanackmar Biosphere Research	1
	District Forest Officer, Research & Extension Division, Bilaspur	1
	District Forest Officer, Research & Extension Division, Jagdalpur	1
	District Forest Officer, Research & Extension Division, Raipur	1
	Deputy Conservator of Forests (Administration)	1
1.	Senior Posts under State Government	79
2	Central Deputation Reserve @ 20% of Item 1 above	16
3	State Deputation Reserve @ 25% of Item 1 above	20
4	Training Reserve @ 3.5% of Item 1 above	03
5	Posts to be filled by promotion in accordance with Rule 8 of Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, not exceeding 33 1/3 % of Items 1,2,3 & 4 above.	39
6	Leave Reserve & Junior Posts Reserve @ 16.5% of Item 1 above	13

7	Posts to be filled by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+6-5)	92
8.	Direct Recruitment Posts	92
9.	Promotion Posts	39
	TOTAL AUTHORISED STRENGTH	131

[No. 16016/02/2005-AIS(II)-A]

SANGEETA SINGH, Director (Services)

Note: Prior to the issue of this Notification, the Total Authorised Strength of the Chhattisgarh (IFS) cadre was 115.

Note: The Principal regulations were published vide notification No. 6/4/66-AIS (IV), dated 31.10.1966 as GSR No. 1072 in the Indian Forest Service (Fixation of cadre strength) Regulations, 1966 has been amended, vide notifications given below:-

S. No.	GSR No.	Date of Publication	S. No.	GSR No.	Date of Publication
1	1673	30.10.66	26.	812	29.4.72
2	17	7.1.67	27.	2227	16.8.75
3.	653	6.5.67	28.	71	17.1.78
4.	654	6.5.67	29.	407(E)	16.6.76
5	689	13.5.67	30.	1064	24.7.76
6	1083	8.6.68	31.	444 (E)	6.7.76
7	1887	9.8.69	32.	750 (E)	3.8.76
8	80	17.1.70	33.	93 (E)	26.2.77
9	485	21.3.70	34.	631 (E)	5.10.77
10	545	4.4.70	35.	13 (E)	6.1.78
11	1802	24.10.70	36.	360(E)	13.7.78
12	135	24.1.75	37.	436(E)	29.8.78
13	136	24.1.71	38.	486(E)	25.8.80
14	665	8.5.71	39.	562(E)	30.9.80
15	45(E)	20.1.72	40.	626E	3.11.80
16	47(E)	20.1.72	41.	631E	4.11.80
17	48(E)	20.1.72	42.	21E	17.1.81
18.	478(E)	4.12.72	43.	31E	23.1.81
19.	192(E)	2.4.73	44.	84(E)	27.2.81
20.	321(E)	27.6.73	45.	456(E)	9.5.81
21.	391(E)	10.8.73	46.	360(E)	23.5.81
22.	142	24.1.71	47.	276(E)	2.6.81
23.	28(E)	8.5.71	48.	386(E)	9.6.81
24.	273(E)	11.1.72	49.	602(E)	16.11.81
25.	300(E)	20.1.72	50.	604(E)	17.11.81

51.	653(E)	10.12.81	96.	584	19.10.91
52.	657(E)	11.12.81	97.	538(E)	6.8.93
53.	294(E)	1.4.82	98.	685(E)	4.11.93
54.	354(E)	26.4.82	99.	687(E)	4.11.93
55.	356(E)	27.4.82	100.	514	22.10.94
56.	778(E)	31.5.82	101.	513	22.10.94
57.	530(E)	20.8.82	102.	321E	31.3.95
58.	24E	12.1.83	103.	213	29.4.95
59.	126(E)	28.2.85	104.	278	10.6.95
60.	308(E)	26.3.85	105.	264	6.6.95
61.	327E	29.3.85	106.	339	22.7.95
62.	489E	12.6.85	107.	375	12.8.95
63.	266	12.4.86	108.	480	18.11.95
64.	654	30.8.86	109.	479	18.11.95
65.	763	20.9.86	110.	503	2.12.95
66.	798	27.9.86	111.	537	9.12.95
67.	796	27.9.86	112.	75E	5.2.96
68.	835	4.10.86	113.	77E	5.2.96
69.	837	4.10.86	114.	231	8.6.96
70.	880	18.10.86	115.	233	8.6.96
71.	164	14.3.87	116.	589E	26.12.96
72.	407	30.5.87	117.	587E	26.12.96
73.	619	15.3.87	118.	585E	26.12.96
74.	802	31.10.87	119.	17E	17.1.97
75.	826	7.11.87	120.	413	20.12.97
76.	835	14.10.87	121.	741E	31.12.97
77.	636	14.11.87	122.	40	29.1.98
78.	432E	6.4.88	123.	617E	14.1.98
79.	546E	4.5.88	124.	372	10.12.99
80.	834E	3.8.88	125.	374	10.12.99
81.	352E	10.3.89	126.	824E	21.10.2000
82.	553E	16.5.89	127.	827E	21.10.2000
83.	455	1.7.89	128.	830E	21.10.2000
84.	832	11.11.89	129.	141	27.4.2002
85.	916	16.12.89	130.	143	27.4.2002
86.	933	30.12.89	131.	139	27.4.2002
87.	590	22.9.90	132.	145	27.4.2002
88.	603	29.9.90	133.	147	27.4.2002
89.	728	8.12.90	134.	372	21.9.2002
90.	730	8.12.90	135.	173	26.4.2003
91.	125(E)	5.3.91			
92.	246	13.4.91			
93.	473	24.8.91			
94.	527	14.9.91			
95.	565	5.10.91			

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2006

सा.का.नि. 35(अ).— भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 1968 के नियम 11 के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 1968 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (i) इन नियमों का नाम भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2006 है।
- (ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 1968 में :-

(क) अनुसूची -III-क में - राज्य सरकार के अधीन भारतीय वन सेवा के समय वेतनमान से ऊपर के पदों में " तालिका के प्रथम कॉलम की "छत्तीसगढ़" प्रविष्टि और दूसरे तथा तीसरे कॉलमों में तदनुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

छत्तीसगढ़

प्रधान महा वन संरक्षक	24050-650-26000/- रूपए
प्रधान महा वन संरक्षक	24050-650-26000/- रूपए
(वन्य जीव प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण सह-मुख्य वन्य जीव संरक्षक)	
अपर प्रधान महा वन संरक्षक	22400-525-24500/- रूपए
(विकास और योजना)	

अपर प्रधान महा वन संरक्षक (प्रशासन/समन्वय)	22400-525-24500/- रूपए
अपर प्रधान महा वन संरक्षक (कार्य योजना)	22400-525-24500/- रूपए
अपर प्रधान महा वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन और नीति विश्लेषण)	22400-525-24500/- रूपए
मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव)	18400-500-22400/- रूपए
मुख्य वन संरक्षक (इको-टूरिज़्म)	18400-500-22400/- रूपए
मुख्य वन संरक्षक (बजट लेखा और लेखा परीक्षा)	18400-500-22400/- रूपए
मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)	18400-500-22400/- रूपए
मुख्य वन संरक्षक (भूमि प्रबंधन और वन संरक्षक अधिनियम)	18400-500-22400/- रूपए
मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)	18400-500-22400/- रूपए
मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता)	18400-500-22400/- रूपए
मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास और सूचना प्रौद्योगिकी)	18400-500-22400/- रूपए
मुख्य वन संरक्षक (परियोजना निर्माण)	18400-500-22400/- रूपए
मुख्य वन संरक्षक (अनुवीक्षण और मूल्यांकन)	18400-500-22400/- रूपए
मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)	18400-500-22400/- रूपए
मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान और विस्तार)	18400-500-22400/- रूपए
मुख्य वन संरक्षक (विकास और आयोजना)	16400-450-20000/- रूपए
मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन और समन्वय)	16400-450-20000/- रूपए
वन संरक्षक (इको-टूरिज़्म)	16400-450-20000/- रूपए
वन संरक्षक (संरक्षण)	16400-450-20000/- रूपए
वन संरक्षक (उत्पादन)	16400-450-20000/- रूपए
वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंध और नीति विश्लेषण)	16400-450-20000/- रूपए
वन संरक्षक (सतर्कता)	16400-450-20000/- रूपए

वन संरक्षक (भू प्रबंधन और वन संरक्षण)	16400-450-20000/- रूपए
वन संरक्षक, रायपुर	16400-450-20000/- रूपए
वन संरक्षक, बिलासपुर	16400-450-20000/- रूपए
वन संरक्षक, दुर्ग	16400-450-20000/- रूपए
वन संरक्षक, कनकेर	16400-450-20000/- रूपए
वन संरक्षक, जगदलपुर	16400-450-20000/- रूपए
वन संरक्षक, सरगुजा	16400-450-20000/- रूपए
वन संरक्षक, कार्य योजना (बिलासपुर)	16400-450-20000/- रूपए
क्षेत्रीय निदेशक परियोजना टाइगर (इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर)	16400-450-20000/- रूपए

(ख) “ अनुसूची III-ख में - राज्य सरकार के अधीन भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ समय वेतनमान में, वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित वेतन लेने वाले पदों में तालिका के पहले कॉलम में आने वाली ‘छत्तीसगढ़’ प्रविष्टि के लिए और दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), बिलासपुर
 उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), मरवाही पंडारा रोड
 उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), कोरबा
 उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), राजगढ़
 उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), कटघोरा
 उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), धर्मजयगढ़, राजगढ़
 उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), जंजागिर-चम्पा
 उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), दुर्ग
 उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), कवर्धा
 उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), राजनंदगांव
 उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), खेरागढ़
 उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), बस्तर
 उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), बीजापुर
 उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), सुक्मा
 उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), दांतीवाड़ा
 उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), कनकेर

उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), पूर्वी भानुप्रतापपुर
 उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), पश्चिमी भानुप्रतापपुर
 उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), नारायणपुर
 उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), उत्तर कौडागांव
 उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), दक्षिण कौडागांव
 उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), रायपुर
 उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), पूर्वी रायपुर
 उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), धामतरी
 उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), महासनुंद
 उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), उदांती प्रभाग (गढ़ियाबंद)
 उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), पूर्वी सरगुजा
 उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), उत्तर सरगुजा
 उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), दक्षिण सरगुजा
 उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), कोरिया
 उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), जशपुर
 उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), मनेन्द्रगढ़
 जिला वन अधिकारी, कार्य योजना मंडल - बिलासपुर
 जिला वन अधिकारी, कार्य योजना मंडल - सरगुजा
 जिला वन अधिकारी, कार्य योजना मंडल - रायपुर
 जिला वन अधिकारी, कार्य योजना मंडल - जगदलपुर
 जिला वन अधिकारी, कार्य योजना मंडल - कनकेर
 जिला वन अधिकारी, कार्य योजना मंडल - दुर्ग
 निदेशक, कांगेरघाटी नेशनल पार्क, जगदलपुर
 निदेशक, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, बैकुंठपुर
 जिला वन अधिकारी, अनुसंधान और विस्तार प्रभाग - बिलासपुर
 जिला वन अधिकारी, अनुसंधान और विस्तार प्रभाग, जगदलपुर
 जिला वन अधिकारी, अनुसंधान और विस्तार प्रभाग, रायपुर
 उप वन संरक्षक (प्रशासन)

[सं. 16016/02/2005-अ.भा.से. (II)-ख]

संगीता सिंह, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी : मुख्य विनियम दिनांक 2.3.1968 की अधिसूचना संख्या 2/11/65-अ.भा.से. (IV) सा.का.नि. संख्या 482 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और दिनांक 16.03.1968 की भारतीय वन सेवा (वेतन) विनियम, 1968 में संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना की सा.का.नि. संख्याओं और तारीखों के द्वारा किए गए थे:-

क्र. सं.	सा.का.नि. संख्या	प्रकाशन की तारीख	क्र.सं.	सा.का.नि. संख्या	प्रकाशन की तारीख
1	1831	12.10.68	26.	445अ.	6.7.78
2	1830	12.10.68	27.	1285	1.10.77
3.	124	18.1.69	28.	632अ.	5.10.77
4.	770	15.3.69	29.	14अ.	6.1.78
5	1269	31.5.69	30.	696	3.6.78
6	2176	13.9.69	31.	361अ.	13.7.78
7	603	11.4.70	32.	362अ.	13.7.78
8	750	9.5.70	33.	935	29.7.78
9	138(अ.)	24.1.71	34.	437अ.	29.8.78
10	662	8.5.71	35.	773	9.8.79
11	22अ.	11.1.72	36.	487अ.	25.8.80
12	46अ.	20.1.72	37.	563अ.	30.9.80
13	493	29.4.72	38.	566अ.	1.10.80
14	401अ.	2.9.72	39.	1075	18.10.80
15	1313	14.10.72	40.	1135	1.11.80
16	1157	27.10.73	41.	827अ.	3.11.80
17	344	6.4.74	42.	632अ.	4.11.80
18.	472अ.	15.11.74	43.	22अ.	17.1.81
19.	781	28.6.75	44.	32अ.	23.1.81
20.	408अ.	16.6.75	45.	361अ.	23.5.81
21.	2228	16.8.75	46.	377अ.	2.6.81
22.	251अ.	3.8.76	47.	387अ.	9.6.81
23.	2268	23.8.75	48.	603अ.	16.11.81
24.	2558	25.10.75	49.	605अ.	17.11.81
25.	832अ.	2.7.70	50.	654अ.	14.12.81

51.	653(3f.)	10.12.81	87.	590	22.9.90
52.	657(3f.)	11.12.81	88.	603	29.9.90
53.	294(3f.)	1.4.82	89.	728	8.12.90
54.	354(3f.)	26.4.82	90.	730	8.12.90
55.	356(3f.)	27.4.82	91.	125(3f.)	5.3.91
56.	778(3f.)	31.5.82	92.	246	13.4.91
57.	530(3f.)	20.8.82	93.	473	24.8.91
58.	243f.	12.1.83	94.	527	14.9.91
59.	126(3f.)	28.2.85	95.	565	5.10.91
60.	308(3f.)	26.3.85	96.	584	19.10.91
61.	3273f.	29.3.85	97.	538(3f.)	6.8.93
62.	4893f.	12.6.85	98.	685(3f.)	4.11.93
63.	266	12.4.86	99.	687(3f.)	4.11.93
64.	654	30.8.86	100.	514	22.10.94
65.	763.	20.9.86	101.	513	22.10.94
66.	798.	27.9.86	102.	3213f.	31.3.95
67.	796	27.9.86	103.	213	29.4.95
68.	835	4.10.86	104.	278	10.6.95
69.	837	4.10.86	105.	264	6.6.95
70.	880	18.10.86	106.	339	22.7.95
71.	164	14.3.87	107.	375	12.8.95
72.	407	30.5.87	108.	480	18.11.95
73.	619	15.3.87	109.	479	18.11.95
74.	802	31.10.87	110.	503	2.12.95
75.	826	7.11.87	111.	537	9.12.95
76.	835	14.10.87	112.	753f.	5.2.96
77.	836	14.11.87	113.	773f.	5.2.96
78.	4323f.	6.4.88	114.	231	8.6.96
79.	5463f.	4.5.88	115.	233	8.6.96
80.	8343f.	3.8.88	116.	5893f.	26.12.96
81.	3523f.	10.3.89	117.	5873f.	26.12.96
82.	5533f.	16.5.89	118.	5853f.	26.12.96
83.	455	1.7.89	119.	173f.	17.1.97
84.	832	11.11.89	120.	413	20.12.97
85.	916	16.12.89	121.	7413f.	31.12.97
86.	933	30.12.89	122.	40	29.1.98

123	6173A.	14.1.98
124	372	10.12.99
125	374	10.12.99
126	8243A.	21.10.2000
127	8273A.	21.10.2000
128	8303A.	21.10.2000
129	141	27.4.2002
130	143	27.4.2002
131	139	27.4.2002
132	145	27.4.2002
133	147	27.4.2002
134	372	21.9.2002
135	173	26.4.2003

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2006

G.S.R. 35(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with Rule 11 of the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968, the Central Government, in consultation with the Government of Chhattisgarh hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968, namely:-

1. (i) These Rules shall be called the Indian Forest Service (Pay) Amendment Rules, 2006.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In The Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968: -
 - (a) In "Schedule III-A: Posts carrying pay above the Time Scale in the Indian Forest Service under the State Governments" in the Table, for the entry 'Chhattisgarh' appearing in the first column and the corresponding entries in the second and third columns, the following shall be substituted, namely: -

CHHATTISGARH

Principal Chief Conservator of Forests	Rs.24050-650-26000/-
Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife Management & Biodiversity Conservation)-cum- Chief Wildlife Warden	Rs.24050-650-26000/-
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Development & Planning)	Rs.22400-525-24500/-
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Administration/Coordination)	Rs.22400-525-24500/-
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Working Plan)	Rs.22400-525-24500/-
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Joint Forest Management & Policy Analysis)	Rs.22400-525-24500/-

Chief Conservator of Forests (Wild Life)	Rs. 18400-500-22400
Chief Conservator of Forests (Eco-Tourism)	Rs. 18400-500-22400
Chief Conservator of Forests (Budget, Account & Audit)	Rs. 18400-500-22400
Chief Conservator of Forests (Administration)	Rs. 18400-500-22400
Chief Conservator of Forests (Land Management & Forest Conservation Act)	Rs. 18400-500-22400
Chief Conservator of Forests (Protection)	Rs. 18400-500-22400
Chief Conservator of Forests (Vigilance)	Rs. 18400-500-22400
Chief Conservator of Forests (HRD & IT)	Rs. 18400-500-22400
Chief Conservator of Forests (Project Formulation)	Rs. 18400-500-22400
Chief Conservator of Forests (Monitoring & Evaluation)	Rs. 18400-500-22400
Chief Conservator of Forests (Production)	Rs. 18400-500-22400
Chief Conservator of Forests (Research & Extension)	Rs. 18400-500-22400
Conservator of Forests (Development & Planning)	Rs. 16400-450-20000/-
Conservator of Forests (Administration & Coordination)	Rs. 16400-450-20000/-
Conservator of Forests (Eco-Tourism)	Rs. 16400-450-20000/-
Conservator of Forests (Protection)	Rs. 16400-450-20000/-
Conservator of Forests (Production)	Rs. 16400-450-20000/-
Conservator of Forests (JFM & Policy Analysis)	Rs. 16400-450-20000/-
Conservator of Forests (Vigilance)	Rs. 16400-450-20000/-
Conservator of Forests (Land Management & Forest Conservation)	Rs. 16400-450-20000/-

Conservator of Forests, Raipur	Rs. 16400-450-20000/-
Conservator of Forests, Bilaspur	Rs. 16400-450-20000/-
Conservator of Forests, Durg	Rs. 16400-450-20000/-
Conservator of Forests, Kanker	Rs. 16400-450-20000/-
Conservator of Forests, Jagdalpur	Rs. 16400-450-20000/-
Conservator of Forests, Sarguja	Rs. 16400-450-20000/-
Conservator of Forests, Working Plan (Bilaspur)	Rs. 16400-450-20000/-
Field Director Project Tiger (Indravati National Park Jagdalpur)	Rs. 16400-450-20000/-

(b) In Schedule III-B: Posts carrying pay in the senior time scale of the Indian Forest Service under the State Government including posts carrying special pay in addition to pay in the time scale for the entry 'Chhattisgarh' occurring in the first column and the corresponding entries in the Second column, the following shall be submitted, namely:-

Deputy Conservators of Forest (Territorial Divisions – Bilaspur, Manwahi Pendra Road, Korba, Rajgarh, Katghora, Dharamjaygarh (Rajgarh), Janjgir-Champa, Durg, Kawardha, Rajnandgaon, Khairagarh, Bastar, Bijapur, Sukma, Dantewada, Kanker, East Bhanuparatappur, West Bhanupartappur, Narayanpur, North Kondagaon, South Kondagaon, Raipur, East Raipur, Dhamtari, Mahasanund, Udanti Division (Gariaband), East Sarguja, North Sarguja, South Sarguja, Korea Jashpur and Mahendragarh .

District Forest Officers, Working Plan Division –Bilaspur, Sarguja, Raipur, Jagdalpur, Kanker and Durg.

Director, Kangerghati National Park, Jagdalpur, Director, Guru Ghasidas National Park, Baikuntpur

District Forest Officers, Research & Extension Division, Bilaspur, Jagdalpur,
Raipur

Deputy Conservator of Forests (Administration)

[No. 16016/02/2005-AIS(II)-B]

SANGEETA SINGH, Director (Services)

Note: The Principal Rules were notified vide Notification No. 2/11/65-AIS (IV), dated 23.1968 as GSR No. 482, dated 16.3.1968 and Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968 has been amended vide Notification given below:

S. No.	GSR No.	Date of Publication	S. No.	GSR No.	Date of Publication
1	1831	12.10.68	26.	445E	6.7.76
2	1830	12.10.68	27.	1285	1.10.77
3.	124	18.1.69	28.	632E	5.10.77
4.	770	15.3.69	29.	14E	6.1.78
5	1269	31.5.69	30.	696	3.6.78
6	2176	13.9.69	31.	361E	13.7.78
7	603	11.4.70	32.	362E	13.7.78
8	750	9.5.70	33.	935	29.7.78
9	138(E)	24.1.71	34.	437E	29.8.78
10	662	8.5.71	35.	773	9.6.79
11	22E	11.1.72	36.	487E	25.8.80
12	46E	20.1.72	37.	563E	30.9.80
13	493	29.4.72	38.	566E	1.10.80
14	401E	2.9.72	39.	1075	18.10.80
15	1313	14.10.72	40.	1135	1.11.80
16	1157	27.10.73	41.	827E	3.11.80
17	344	6.4.74	42.	632E	4.11.80
18.	472E	15.11.74	43.	22E	17.1.81
19.	781	28.6.75	44.	32E	23.1.81
20.	408E	16.6.75	45.	361E	23.5.81
21.	2228	16.8.75	46.	377E	2.6.81
22.	251E	3.8.76	47.	387E	9.6.81
23.	2268	23.8.75	48.	603E	16.11.81
24.	2558	25.10.75	49.	605E	17.11.81
25.	832E	2.7.70	50.	654E	14.12.81

51.	653(E)	10.12.81	96.	584	19.10.91
52.	657(E)	11.12.81	97.	538(E)	6.8.93
53.	294(E)	1.4.82	98.	685(E)	4.11.93
54.	354(E)	26.4.82	99.	687(E)	4.11.93
55.	356(E)	27.4.82	100.	514	22.10.94
56.	778(E)	31.5.82	101.	513	22.10.94
57.	530(E)	20.8.82	102.	321E	31.3.95
58.	24E	12.1.83	103.	213	29.4.95
59.	126(E)	28.2.85	104.	278	10.6.95
60.	308(E)	26.3.85	105.	264	6.6.95
61.	327E	29.3.85	106.	339	22.7.95
62.	489E	12.6.85	107.	375	12.8.95
63.	266	12.4.86	108.	480	18.11.95
64.	654	30.8.86	109.	479	18.11.95
65.	763.	20.9.86	110.	503	2.12.95
66.	798.	27.9.86	111.	537	9.12.95
67.	796	27.9.86	112.	75E	5.2.96
68.	835	4.10.86	113.	77E	5.2.96
69.	837	4.10.86	114.	231	8.6.96
70.	880	18.10.86	115.	233	8.6.96
71.	164	14.3.87	116.	589E	26.12.96
72.	407	30.5.87	117.	587E	26.12.96
73.	619	15.3.87	118.	585E	26.12.96
74.	802	31.10.87	119.	17E.	17.1.97
75.	826	7.11.87	120.	413	20.12.97
76.	835	14.10.87	121.	741E	31.12.97
77.	836	14.11.87	122.	40	29.1.98
78.	432E	6.4.88	123.	617E	14.1.98
79.	546E	4.5.88	124.	372	10.12.99
80.	834E	3.6.88	125.	374	10.12.99
81.	352E	10.3.89	126.	824E	21.10.2000
82.	553E	16.5.89	127.	827E	21.10.2000
83.	455	1.7.89	128.	830E	21.10.2000
84.	832	11.11.89	129.	141	27.4.2002
85.	916	16.12.89	130.	143	27.4.2002
86.	933	30.12.89	131.	139	27.4.2002
87.	590	22.9.90	132.	145	27.4.2002
88.	603	29.9.90	133.	147	27.4.2002
89.	726	8.12.90	134.	372	21.9.2002
90.	730	8.12.90	135.	173	26.4.2003
91.	125(E)	5.3.91			
92.	248	13.4.91			
93.	473	24.8.91			
94.	527	14.9.91			
95.	565	5.10.91			